



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 1975/वर्ण 2, 1897
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1975/SRAVANA 2, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd July 1975

No. S-16025/33/75-LW.--In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, and in supersession of this Ministry's Resolution No. S-16025/51/74-LW, dated the 3rd October, 1974, the Central Government hereby constitutes a committee to go into the question of working of contract labour system in Manganese, Limestone and Dolomite Mines.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will now be as under :—

Composition :

Members

- (1) Shri S. Das Gupta, Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Dhanbad.
- (2) Shri Prakash Roy, Chikli, P.O. Rajnandgaon.
- (3) Shri O. D. Sharma, Manager (Industrial Relations), National Minerals Development Corporation Ltd., Hyderabad.
- (4) Shri N. P. Dhusia, Deputy General Manager, Steel Authority of India Ltd., New Delhi.
- (5) Shri U. N. Prasad, General Secretary, Panposh Mazdoor Union, P.O. Rourkela, Dist. Sundergarh (Orissa).

- (6) Shri K. K. Sen Gupta, Senior Manager (Minerals), Steel Authority of India Ltd., New Delhi.

Member, Convener

- (7) Shri K. D. Gandhi, Under Secretary, Ministry of Labour, New Delhi.

Terms of Reference :

- (1) To consider whether Contract Labour System in Manganese, Limestone and Dolomite Mines is being properly regulated keeping in view the facilities and other welfare measures being provided to them;
 - (2) To recommend remedial measures for ameliorating the working conditions of Contract Labour engaged in Manganese, Limestone and Dolomite Mines; and
 - (3) To consider whether Contract Labour System should be abolished in these mines.
3. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee would endeavour to submit a report to the next meeting of the Central Advisory Board.

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

सं० एस०-16025/33/75-एल० डब्ल्यू०.—ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय के संकल्प संख्या एस-16025/51/74-एल० डब्ल्यू० तारीख 3 अक्टूबर, 1974 का अभिक्रमण करके केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा मैंगनीज, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्य करण के प्रश्न पर अनुसन्धान करने के लिए एक समिति गठित करती है।

2. समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय अब निम्न प्रकार होंगे :—

गठन :—

सदस्य

- (1) श्री एस० दास गुप्ता,
सचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान
श्रमिक फेडरेशन, धनबाद।
- (2) श्री प्रकाश राय,
चिकली, डाकघर राजनन्दगांव।
- (3) श्री मो० डी० शर्मा,
प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध),
राष्ट्रीय खनिज विकास कारपोरेशन लिमिटेड,
हैदराबाद।
- (4) श्री एन० पी० घुसिया,
उप महा प्रबन्धक,
भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड,
नई दिल्ली।

- (5) श्री यू० एन० प्रसाद,
महा सचिव,
पतपोश भजदूर यूनियन,
डाकघर राउरकेला,
जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।
- (6) श्री के० के० सेन गुप्ता,
वरिष्ठ प्रबन्धक (खनिज),
भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

सदस्य—संयोजक

- (7) श्री के० डी० गांधी,
भारत सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

विचारार्थ विषय :

- (1) मैंगनीज, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों का दी जा रही सुविधाओं, दिए जा रहे अन्य कल्याण कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह गौर करना कि क्या उनमें ठेका श्रम प्रणाली को उचित ढंग से विनियमित किया जा रहा है ;
- (2) मैंगनीज, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में लगे ठेका श्रमिकों की कार्य-वशाओं को सुधारने के लिए उपचारी उपायों की सिफारिश करना; और
- (3) यह विचार करना कि क्या इन खानों में ठेका श्रम प्रणाली का अन्त किया जाना चाहिए ।

3. इस समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक में एक रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करेगी ।

डी० बन्धोपाध्याय, संयुक्त सचिव ।

